



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2006/पौष 1, 1928

No. 288]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2006/PAUSA 1, 1928

राज्य सभा सचिवालय

RAJYA SABHA SECRETARIAT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2006

New Delhi, the 22nd December, 2006

सं. आरएस. 1/3/2006-एल.—राष्ट्रपति द्वारा 21 दिसम्बर, 2006 को दिया गया निम्नलिखित आदेश आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

No. RS. 1/3/2006-L.—The following order by the President dated the 21st December, 2006 is published for general information :

“संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा राज्य सभा का सत्रावसान करता हूँ।

“In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Rajya Sabha.

21 दिसम्बर, 2006

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।”

21st December, 2006

A. P. J. ABDUL KALAM,
PRESIDENT.”

योगेन्द्र नारायण, महासचिव

YOGENDRA NARAIN, Secy.-General